



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2 ]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 2003/माघ 5, 1924

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 2003/MAGHA 5, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग-संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2003

आ.अ. 2.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तरांचल राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विन बनावे गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और जबकि उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का विवरण
1	2	3	4	5
1.	उत्तरांचल राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	15-राजपुर	शशिकान्त ग्राम-कौडसी पो.ओ.-बडोगल, देहरादून	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5
2.	उत्तरांचल राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	18-डोईवाला	राधेश्याम, 144-रायपुर, देहरादून	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया है।
3.	-वही-	-वही-	हरीश कुमार, ग्राम-नकरौन्दा, डोईवाला	-वही-
4.	-वही-	-वही-	मुनीर अहमद उर्फ बम्बल, जी-198, नेहरू कालोनी, देहरादून	-वही-
5.	-वही-	19-भगवानपुर (अ.जा.)	संजय, 715, पश्चिमी अम्बर तालाब, रूड़की	-वही-
6.	-वही-	-वही-	सुरेन्द्र 128, पश्चिमी अम्बर तालाब, रूड़की	-वही-
7.	-वही-	-वही-	धर्म सिंह, ग्राम-बन्जारे वाला ग्रान्ट	-वही-
8.	-वही-	20-रूड़की	फकरे आलम, 29, पठानपुरा, रूड़की	-वही-
9.	-वही-	21-इकबालपुर	नजीमा, झबरेड़ा, अकबरपुर झोड़ा, हरिद्वार	-वही-
10.	-वही-	-वही-	मौ. यासीन, ग्राम-मोहितपुर पो.—सिरचंदी, भगवानपुर, हरिद्वार	-वही-
11.	-वही-	-वही-	मेहरबान, ग्राम-मोहितपुर सिरचंदी, भगवानपुर, हरिद्वार	-वही-
12.	-वही-	22-मंगलौर	गण्यूर, ग्राम-भगवानपुर, चन्दनपुर, पो.-लण्ढौरा	-वही-
13.	-वही-	-वही-	सचिन, मौ.-लालघाड़ा, मंगलौर	-वही-
14.	-वही-	23-लण्ढौरा (अ.जा.)	सतीश कुमार, जे-256, सियालिक नगर, वी.एच.ई.एल. रानीपुर, हरिद्वार।	-वही-
15.	-वही-	24-लक्सर	सतीश, ग्राम-बालचन्दवाला, डा.-गोवर्धनपुर, जिला-हरिद्वार	-वही-

1	2	3	4	5
16.	उत्तरांचल राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	27-लालबाग	मुदस्यार, 40, गाँधी रोड, देहरादून	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया है।
17.	-वही-	-वही-	इमरान अहमद, कोठी नं. 53, मूलचन्द एन्कलेव, मजरा, देहरादून	-वही-
18.	-वही-	28-यमकेश्वर	चित्रमणी, ग्राम-गहली, पट्टी-डबरातस्यू, (डबोलीखाल), गढ़वाल	-वही-
19.	-वही-	29-कोटद्वार	शशिकान्त, ग्राम-काशीरामपुर, कोटद्वार, गढ़वाल	-वही-
20.	-वही-	-वही-	नन्दन सिंह, ग्राम-काशीरामपुर, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, गढ़वाल	-वही-
21.	-वही-	-वही-	आलोक सिंह, ग्राम-बलभद्रपुर, कोटद्वार, गढ़वाल	-वही-
22.	-वही-	-वही-	जगमोहन, ग्राम-काशीरामपुर, कोटद्वार, गढ़वाल	-वही-
23.	-वही-	-वही-	दिलेन्द्र कुमार, आम पड़ाव, इंदिरा नगर, बाल्मीकि बस्ती, कोटद्वार, गढ़वाल	-वही-
24.	-वही-	-वही-	विश्वपाल, गुरुकुल महाविद्यालय, कणवाश्रम (कलालघाटी), पौड़ी गढ़वाल	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
25.	-वही-	49-सोमेश्वर, (अ.जा.)	बसन्त राम, ग्राम-रौन, पो.-डाल, अलमोड़ा	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26.	-वही-	63-खटीमा (अ.ज.जा.)	इन्द्र सिंह रावत, नि. रेलवे रोड, वार्ड नं. 6, हलद्वानी, जिला-नैनीताल	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।

[ सं. 76/उत्तरां.-वि.स./2002 ]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक-सह-प्रधान सचिव (प्रशासन)

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2003

**O.N. 2.**—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Elections to the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder, as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Constituency	Name and Address of contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal, 2002	15-Rajpur	Shashikant, Vill.-Kodasi, PO-Badgaal, Dehradun	Failed to lodge any account of his election expenditure.
2.	-do-	18-Doiwala	Radhe Shyam, 144-Rajpur, Dehradun	-do-
3.	-do-	-do-	Harish Kumar, Vill.-Nakaronda, Doiwala	-do-
4.	-do-	-do-	Munir Ahmad Alias Babbal, G-198, Nehru Colony, Dehradun	-do-
5.	-do-	19-Bhagwanpur (SC)	Sanjay, 715, West Amber Talab, Roorkee	-do-
6.	-do-	-do-	Surender, 128, West Amber Talab, Roorkee	-do-
7.	-do-	-do-	Dharam Singh, Vill.-Banjor Wala Grant	-do-
8.	-do-	20-Roorkee	Fakre Alam, 29, Pathanpura, Roorkee	-do-
9.	-do-	21-Iqbalpur	Nazima, Jabhreda, Akbarpur Jhojha, Haridwar	-do-
10.	-do-	-do-	Moh. Yasin, Vill.-Mohitpur, PO-Sirchandi, Bhagwanpur, Haridwar	-do-

1	2	3	4	5
11.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal, 2002	21-Iqbalpur	Meharwan, Vill.-Mohitpur, Sirchandi, Bhagwanpur, Haridwar	Failed to lodge any account of his election expenditure
12.	-do-	22-Manglor	Gaiyur, Vill.-Bhagwanpur Chandanpur, Post-Landhaura	-do-
13.	-do-	-do-	Sachin, Moh.-Lalwara, Manglor	-do-
14.	-do-	23-Landhaura (SC)	Satish Kumar J-256, Siyalik Nagar, BHEL, Ranipur, Haridwar	-do-
15.	-do-	24-Laksar	Satish, Vill.-Balchandwala, Post-Goverdhanpur, Distt.-Haridwar	-do-
16.	-do-	27-Laldhang	Mudsiyar, 40, Gandhi Road, Dehradun	-do-
17.	-do-	-do-	Imran Ahmad, Kothi No. 53, Moolchand Enclave, Mazra, Dehradun	-do-
18.	-do-	28-Yamkeshwar	Chitramani, Vill.-Gahali, Patti, Dabralayun (Dobolikhali), Garhwal	-do-
19.	-do-	29-Kotdwar	Shashikant, Vill.-Kashirampur, Kotdwar, Garhwal	-do-
20.	-do-	-do-	Nandan Singh, Vill.-Kashirampur, Nazibabad Road, Kotdwar, Garhwal	-do-
21.	-do-	-do-	Alok Singh, Vill.-Balbhadrapur, Kotdwar, Garhwal	-do-
22.	-do-	-do-	Jagmohan, Vill.-Kashirampur, Kotdwar, Garhwal	-do-
23.	-do-	-do-	Dilendra Kumar, Aam Paday Indira Nagar, Balmiki Basti, Kotdwar, Garhwal	-do-
24.	-do-	-do-	Vishwapal, Gurukul Maha Vidyalaya, Kanwashram (Kalalghati), Pauri Garhwal	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law.

1	2	3	4	5
25.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal, 2002	49-Someshwar (SC)	Basant Ram, Vill.-Ron, Post-Dal, Almoria	Failed to lodge any account of his election expenditure
26.	-do-	63-Khatima (ST)	Indra Singh Rawat, Near Railway Station Road, Ward No. 6, Haldwani, Distt.-Nainital	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law.

[No. 76/UCL-LA/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director-cum-Principal Secy. (Admn.)

**आदेश**

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2003

आ.अ. 3.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तरांचल राज्य से वर्ष 2002 में हुए विधान सभा के उप निर्वाचन में 56-रामनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनुभव कुमार, पैठ पड़ाव, रामनगर, नैनीताल, उत्तरांचल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई भी कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री अनुभव कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[ सं. 76/उत्तरा.-वि.स./2002(उप) ]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक-सह-प्रधान सचिव (प्रशासन)

**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2003

O.N. 3.—Whereas the Election Commission of India is satisfied that Shri Anubhav Kumar, Peith Padav, Ramnagar, Nainital, a contesting candidate at the Bye-election to the Legislative Assembly in the State of Uttaranchal from 56-Ram Nagar Legislative Assembly Constituency held in 2002 has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Anubhav Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UCL-LA/2002(Bye)]

By Order,

ANAND KUMAR, Director-cum-Principal Secy. (Admn.)

## आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2003

आ.अ. 4.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

## सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2002।	38-नवां शहर	श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह, ग्रा० और पो० आ० शेखपुरा बाग, नवां शहर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री तारसेम सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, ग्रा० और पो० खाट खार खुर्द, जिला नवां शहर	-वही-
3.	-वही-	43-फगवाड़ा (अ.जा.)	श्री संजीव कुमार, मो० सुभाष नगर, गली नं० 7, फगवाड़ा	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री सतविंदर सिंह,	-वही-
5.	-वही-	-वही-	नीमावली सड़क, फगवाड़ा	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री हरीन्दर कुमार, नीमावाला चौक, फगवाड़ा	-वही-
7.	-वही-	62-कुमकलां (अ.जा.)	श्री जगदीश, शाम नगर, गली नं० 3, फगवाड़ा	-वही-
8.	-वही-	63-समराला	श्री हरजिन्दर कुमार जाखू, ग्रा० व पो० जनदियाली, नेरा कोहारे, तहसील व जिला लुधियाना	-वही-
9.	-वही-	74-शुत्राना (अ.जा.)	श्री कमलजीत पुरी, ग्राम संघोल, तहसील खामानोन, जिला फतेहगढ़ साहिब	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्री राम चन्द, ग्रा० चूनागढ़, तहसील समाना, पो० आ० हरयाऊ खुर्द	-वही-
11.	-वही-	75-समाना	श्री प्यारा सिंह, ग्रा० गालोली, तह० समाना	-वही-
			श्री राजबीर सिंह दिल्ली, नूरपुरा पट्टी, समाना, जिला पटियाला	-वही-

1	2	3	4	5
12.	पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2002।	75-समाना	श्री अजायब सिंह, ग्रा० व पो० चालाइला, तह० व जिला पटियाला	निर्वाचन व्यापों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13.	-वही-	-वही-	श्री अमनदीप सिंह, ग्रा० लुटकी माजरा, पो० आ० धनेठा, तह० समाना	-वही-
14.	-वही-	-वही-	श्री हरिन्दर सिंह, ग्रा० लुटकी माजरा, पो० आ० धनेठा, तह० समाना	-वही-
15.	-वही-	-वही-	श्री गुरुदेव सिंह, मकान नं० 224, सेवक कालोनी, पटियाला	-वही-
16.	-वही-	76-पटियाला नगर	श्री राकेश राम, 210, गली नं० 3, गांधी नगर, पटियाला	-वही-
17.	-वही-	94-गुरुहर सहाय	श्री ओम प्रकाश, ग्रा० मेघा पाई, पो० आ० पिण्डी, तह० जलालाबाद, जिला फिरोजपुर	-वही-
18.	-वही-	110-पक्का कलां (अ.जा.)	श्री अवतार चमक पुत्र श्री जंगीर सिंह, मं० नं० 21370, पावर हाऊस रोड, भटिंडा	-वही-
19.	-वही-	112-नथाना (अ.जा.)	श्री तेजा सिंह पुत्र श्री जंग सिंह, मं० नं० 26606, गली नं० 3, 1/2, अमरपुरा बस्ती, भटिंडा	-वही-
20.	-वही-	-वही-	श्री पुर्णवन्दरपाल सिंह, गुरु नानक गली नं०-3, पारस राम नगर	-वही-
21.	-वही-	-वही-	श्री माखन सिंह, ग्रा० खेमना, जिला० भटिंडा	-वही-
22.	-वही-	-वही-	श्री रणजीत सिंह, वार्ड नं० 6, गुरु नानक देव नगर, बुचु मण्डी, भटिंडा	-वही-
23.	-वही-	-वही-	श्री तेजा सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह, ग्रा० अकलिया कलां, जिला भटिंडा	-वही-
24.	-वही-	-वही-	श्रीमती गुरनाम कौर, ग्रा० अकलिया जलाला, जिला भटिंडा	-वही-
25.	-वही-	114-जोगा	श्री सुर्जन सिंह, ग्रा० व पो० जोगा, तह० व जिला मानसा	-वही-
26.	-वही-	-वही-	श्री करतार सिंह ग्रा० चाक, फतेह सिंह वाला, तह० व जिला० भटिंडा	-वही-
27.	-वही-	116-बुधलाडा	श्री बलदेव सिंह, ग्रा० व पो० बुधलाडा, बुधलाडा	-वही-
28.	-वही-	-वही-	श्री शुभकरन, ग्रा० बारीटा, तहसील बुधलाडा	-वही-



1	2	3	4	5
29.	पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2002	117-सरदूलगढ़	श्री वेद प्रकाश वार्ड नं० 1, आदर्श नगर, सरदूलगढ़, जिला मानसा	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[ सं. 76/पं.-वि.स. 2002(1) ]

आदेश से,

घनश्याम खोहर, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2003

**O. N. 4.**—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the Elections to the Legislative Assembly of Punjab as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission, is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Punjab Legislative Assembly-2002	38-Nawanshahr	Shri Hardev Singh, S/o Sewa Singh, V & PO Shekhupur Bagh Nawanshahr.	Failure to lodge any account of election expenses
2.	—do—	—do—	Shri Tarsem Singh, S/o Piara Singh, V & PO Khat Khar, Khurd, Distt. Nawanshahr.	—do—
3.	—do—	43-Phagwara (SC)	Shri Sanjeev Kumar, Moh. Subhash Nagar, Gali No. 7, Phagwara.	—do—
4.	—do—	—do—	Shri Satwinder Singh, Nimawali Road, Phagwara.	—do—
5.	—do—	—do—	Shri Harinder Kumar, Nimawala Chowk, Phagwara.	—do—
6.	—do—	—do—	Shri Jagdish, Sham Nagar, Gali No. 3, Phagwara.	—do—
7.	—do—	62-Kum-Kalan (SC)	Shri Harjinder Kumar Jakhu, V & PO Jandiali, Nera Kohare, Tehsil & District Ludhiana.	—do—

1	2	3	4	5
8.	General Election to the Punjab Legislative Assembly 2002	63-Samrala	Shri Kamaljit Puri, Vill. Sanghol, Tehsil Khamananon, Distt. Fatehgarh Sahib.	Failure to lodge any account of election expenses
9.	—do—	74-Shutrana (SC)	Shri Ram Chand, Vill. Chunagara, Tehsil Samana, P.O. Haryao Khurad.	—do—
10.	—do—	—do—	Shri Piara Singh, Vill. Galoli, Tehsil Samana.	—do—
11.	—do—	75-Samana	Rajbir Singh Dhillon, Noorpura Patti, Samana, Distt. Patiala.	—do—
12.	—do—	—do—	Shri Ajaib Singh, V & PO Challaila, Tehsil & Distt. Patiala.	—do—
13.	—do—	—do—	Shri Amandeep Singh, Vill. Lutki Majra, PO Dhanetha, Tehsil Samana.	—do—
14.	—do—	—do—	Shri Harinder Singh, Vill. Lutki Majra, PO Dhanetha, Tehsil Samana.	—do—
15.	—do—	—do—	Shri Gurdev Singh, H. No. 224, Sewak Colony, Patiala.	—do—
16.	—do—	76-Patiala Town	Shri Rakesh Ram, 210, Gali No. 3, Gandhi Nagar, Patiala.	—do—
17.	—do—	94-Guruharsahai	Shri Om Parkash, V. Megha Pai, PO Pindi, Tehsil Jalalabad, Distt. Ferozepur.	—do—
18.	—do—	110-Pakka Kalan (SC)	Shri Avtar Chamak, S/o Shri Jangir Singh, H. No. 21370, Power House Road, Bhatinda.	—do—
19.	—do—	112-Nathana (SC)	Shri Teja Singh S/o Jang Singh, H. No. 26606, St. No. 3, 1/2 Amarpura Basti, Bhatinda.	—do—
20.	—do—	—do—	Shri Pushvinderpal Singh, Guru Nanak St. No. 3, Paras Ram Nagar, Bhatinda.	—do—
21.	—do—	—do—	Shri Makhan Singh, V. Khemuna, Distt. Bhatinda.	—do—

1	2	3	4	5
22.	General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2002	112-Nathana (SC)	Shri Ranjit Singh, Ward No. 6, Guru Nanak, Dev Nagar, Bhuchu Mandi, Bhatinda.	Failure to lodge any account of election expenses.
23.	—do—	—do—	Shri Teja Singh, S/o Shri Jangir Singh, V. Aklia Kalan, Distt. Bhatinda.	—do—
24.	—do—	—do—	Smt. Gumam Kaur, V. Aklia Jalal, Distt. Bhatinda.	—do—
25.	—do—	114-Joga	Shri Surjan Singh, V. & P.O. Joga, Tehsil & Distt. Mansa.	—do—
26.	—do—	—do—	Shri Kartar Singh, Vill. Chack, Faateh Singh Wala, Tehsil & Distt. Bhatinda.	—do—
27.	—do—	116-Budhlada	Shri Baldev Singh, V. & P. O. Budhlada, Budhlada.	—do—
28.	—do—	—do—	Shri Subh Karan, Vill. Bareta, Tehsil Budhlada.	—do—
29.	—do—	117-Sardulgarh	Shri Ved Parkash, Ward No. 1, Adarsh Nagar, Sardulgarh, Distt. Mansa.	—do—

[No. 76/PB-LA/2002 (1)]

By Order,

GHANSHYAM KHOHAR, Secy.